

HW
26.7.21

Hw

Date _____
Page _____

- 1- अगर हम आलस छोड़ेंगे तो हम अधिक सक्रिय होंगे।
- 2- हम अपना कार खुद कर पाएंगे।
- 3- हम मोटे नहीं होंगे क्योंकि हम सक्रिय रहेंगे।
- 4- हम शारीरिक फिटनेस बनाए रखने में सक्षम होंगे।
- 5- अगर हम आलसी हैं तो हम स्कूल जाने की भी उपेक्षा करेंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है।